

‘ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यांसाठी शिक्षण प्रसार’

-शिक्षणमहर्षि डॉ बापूजी साळुंखे

श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था संचलित,
विवेकानंद कॉलेज (अधिकारप्रदत्त स्वायत्त), कोल्हापुर

हिंदी विभाग
वर्ष 2022-2023

हिंदी अनुवादक पाठ्यक्रम (PG Diploma in Hindi Translation)

पेपर क्र 1- अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि

उद्देश्य:

1. अनुवाद के महत्त्व से विद्यार्थियों को परिचित कराना।
2. अनुवाद कौशल्य को विद्यार्थियों में विकसित करना।
3. अनुवाद के माध्यम से भाषा कौशल्य का विकास करना।
4. अनुवाद के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयास
5. राजभाषा के महत्त्व एवं वर्तमान स्थिति से विद्यार्थियों को अवगत कराना।
6. अंतरानुशासनात्मक अध्ययन के प्रति रुझान पैदा करना।

इकाई 1: अनुवाद सैद्धांतिक विवेचन

'अनुवाद अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा

इकाई 2: अनुवाद की प्रक्रिया और प्रकार

क) अनुवाद की प्रक्रिया

अ) स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का सामान्य परिचय

आ) अनुवाद की प्रक्रिया के विविध सोपान

इ) अनुवादक के गुण, दायित्व और अपेक्षाएँ

ख) अनुवाद के प्रकार- शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, आशु अनुवाद, आदर्शानुवाद, साहित्यिक और साहित्येतर अनुवाद, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद, मशीनी अनुवाद।

इकाई 3: राजभाषा हिन्दी संवैधानिक स्थिति व अनुवाद

1. राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति

- राजभाषा से जुड़े अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा नीति
- राष्ट्रपति के आदेश तथा हिन्दी के विविध स्तरीय प्रयोग 1952 तथा 1955 -संसदीय राजभाषा समिति - 1957, राजभाषा आयोग - 1955, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967
- राजभाषा हिन्दी की वर्तमान स्थिति



2. अनुवाद : आवश्यकता एवं महत्त्व

इकाई 4: अनुवाद समस्याएँ एवं समाधान

- साहित्यिक अनुवाद से जुड़ी समस्याएँ एवं उनका समाधान
- साहित्येतर अनुवाद से जुड़ी समस्याएँ एवं उनका समाधान
- सांस्कृतिक संदर्भों के अनुवाद की समस्याएँ एवं समाधान
- लिप्यंतरण: समस्याएँ एवं समाधान
- लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अनुवाद की समस्याएँ एवं समाधान
- मानक वर्तनी लेखन की समस्याएँ एवं अनुवाद

• प्रश्नपत्र का स्वरूप एवं अंक विभाजन

अनुवाद : सैद्धान्तिक एवं प्रविधि के प्रश्नपत्र का प्रारूप एवं अंक विभाजन का विवरण
वार्षिक परीक्षा कुल अंक 100

प्रश्न 1 पूरे पाठ्यक्रम पर 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न	अंक - 20
प्रश्न 2 विभाग एक और दो पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ	अंक - 20
प्रश्न 3 विभाग तीन और चार पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ	अंक - 20
प्रश्न 4 पूरे पाठ्यक्रम पर टिप्पणियाँ लिखिए (6 में से 4) -	अंक- 40

• संदर्भ ग्रंथ -

1. गोपीनाथन जी - अनुवाद : सिद्धान्त एवं प्रयोग 2001, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. रमेश चंद्र - व्यावहारिक अनुवाद कला, 1998, नीलकंठ प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. भोलानाथ तिवारी- अनुवाद विज्ञान सिद्धान्त एवं प्रविधि 2009, किताबघर, नई दिल्ली।
4. सुरेश कुमार अनुवाद सिद्धान्त की रूपरेखा 2005, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. कुसुम अग्रवाल - अनुवाद शिल्प समकालीन संदर्भ -2008, साहित्य सहकार, दिल्ली।
6. विनोद गोदरे-प्रयोजनमूलक हिन्दी - पहला संस्करण-2001, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली।
7. डॉ. तिवारी भोलानाथ, अनुवाद विज्ञान, शब्दकार प्रकाशन, नई दिल्ली, 1972
8. डॉ. अय्यर विष्वनाथ, अनुवाद कला, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 1982
9. डॉ. राजूरकर म.ह. डॉ. बोरा राजमल (संपा.) अनुवाद क्या है ? वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993
10. डॉ. भाटिया कैलाष अनुवाद कला सिद्धान्त और प्रयोग, तक्षपिला प्रकाशन, 1985
11. गुप्त गार्गी, अनुवाद बोध, भारतीय अनुवाद परिषद, 1984
12. पालीवाल, रीतारानी, अनुवाद प्रक्रिया, साहित्य निधि प्रकाशन, 1982
13. पालीवाल, रीतारानी, अनुवाद की सामाजिक भूमिका, सचिन प्रकाशन, 1991
1964



प्रश्नपत्र 2 अनुवाद: अनुप्रयोग एवं व्यावहारिक अनुवाद कार्य

उद्देश्य

1. अनुवाद कौशल्य को विद्यार्थियों में विकसित करना।
2. अनुवाद के माध्यम से भाषा कौशल्य का विकास करना।
3. अनुवाद के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयास
4. अनुवाद से जुड़े रोजगार के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना।
5. राजभाषा के महत्त्व व वर्तमान स्थिति से विद्यार्थियों को अवगत कराना। कार्यालयीन हिन्दी व अनुवाद के विकसित रूप से विद्यार्थियों को परिचित कराना।
6. मशीनी अनुवाद से जुड़ी संभावनाओं व सीमाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना।

इकाई 1: कार्यालयीन हिन्दी अनुवाद

पारिभाषिक शब्दावली एवं वाक्यांश का अनुवाद एवं कार्यालयीन सूचना परिपत्र, पत्रलेखन, टिप्पण आदि का व्यावहारिक अनुवाद।

इकाई 2 : व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में अनुवाद

रेलवे, बीमा, बैंक, डाक, फिल्म पटकथा एवं संवाद संबंधी अनुवाद, विविध प्रसार माध्यमों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली / वाक्यांशों का परिचय एवं व्यावहारिक अनुवाद

इकाई 3 वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में अनुवाद

वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दों / वाक्यांशों का परिचय एवं व्यावहारिक अनुवाद, मानक वर्तनी एवं प्रूफशोधन का परिचय।

इकाई 4: मशीनी अनुवाद

मशीनी अनुवाद - मानवसाधित मशीनी अनुवाद, मशीन साधित मानव अनुवाद, पूर्ण मशीनी अनुवाद और आंशिक मशीनी अनुवाद, मशीनी अनुवाद की सीमाएँ और संभावनाएँ।

• प्रश्नपत्र का स्वरूप एवं अंक विभाजन

अनुवाद: अनुप्रयोग एवं व्यावहारिक अनुवाद कार्य के प्रश्नपत्र का प्रारूप एवं अंक विभाजन का विवरण

वार्षिक परीक्षा फुल अंक 100

प्रश्न 1 पूरे पाठ्यक्रम पर 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न	अंक - 20
प्रश्न 2 विभाग एक और दो पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ	अंक - 20
प्रश्न 3 विभाग तीन और चार पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ	अंक - 20
प्रश्न 4 पूरे पाठ्यक्रम पर टिप्पणियाँ लिखिए (6 में से 4) -	अंक- 40

• संदर्भ ग्रंथ

1. विनोद गोदरे- प्रयोजनमूलक हिंदी, पहला संस्करण 2001, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली।
2. कृष्ण कुमार गोस्वामी-प्रयोजन मूलक भाषा और कार्यालयी हिन्दी, कलिंगा प्रकाशन, दिल्ली।
3. कैलाशचंद्र भाटिया कामकाजी हिन्दी - वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
4. कैलाशचंद्र भाटिया - राजभाषा हिन्दी - वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
5. गोपीनाथ श्रीवास्तव सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग लोकभारती, इलाहाबाद



प्रश्नपत्र 3 अनुवाद परियोजना कार्य

कुल अंक 100%

1. परियोजना कार्य टंकित 25 पृष्ठ अंक: 75

1.1 साहित्यिक अनुवाद

1.2 साहित्येतर अनुवाद

(कार्यालयीन, वाणिज्य, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सामग्री का अनुवाद) 2. संगोष्ठी : हिंदी

अनुवाद पदविका पाठ्यक्रम पर आधारित एक सेमिनार अंक 25

उपर्युक्त क्षेत्रों से संबद्ध प्रायोगिक अनुवाद (अंग्रेजीसे हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में)। परियोजना कम से कम 10 पृष्ठों की हो जिसे पूरे पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किया जाए।



Anneka
विभागाध्यक्ष,
हिंदी विभाग, विवेकानंद कॉलेज,
कोल्हापूर.